

प्रेस नोट

दमण दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक ने दीव में विकासीय कार्यों का किया निरीक्षण

दीव, दिनांक 27/11/2018 : दमण दीव एवं दादरा नगर हवेली के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल ने दीव में हो रहे विकासीय कार्यों के निरीक्षण के लिए दिनांक 26/11/2018 को शाम में दीव पहुँचे । दूसरे दिन दिनांक 27/11/2018 को पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे वे दीव स्थित घोघला समुद्र तट पर पहले निरीक्षण के लिए गए एवं वहाँ बनने वाले उद्यान के सौंदर्यीकरण के बारे में उपस्थित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये । उनके साथ दमण से उनके सलाहकार श्री एस. एस. यादव. शिक्षा सचिव श्रीमती पूजा जैन एवं श्री बी. सत्या भी आये थे । घोघला समुद्र तट पर लम्बे समय तक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने एवं दिशा-निर्देश देने के बाद वे घोघला के सिद्धि विनायक मन्दिर के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बन रहे मकानों का निरीक्षण करने गए एवं वहाँ ठेकेदार के साथ चर्चा की तथा उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने के लिए सुझाया । किसी भी हाल में गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किये जाने के बारे में उन्होंने चेताया । माननीय प्रशासक महोदय ने स्वयं स्थल पर घुमकर निरीक्षण किया । उसके बाद प्रशासक महोदय ने घोघला स्थित मछुआरों की जेटी का निरीक्षण किया एवं नव निर्माणाधीन कमलेश्वर विद्यालय निरीक्षण करने पहुँचे । वहाँ उन्होंने बारीकी से निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया एवं बन रहे मकानों के आडे-तिरछे कोणों का भी माप करके देखा । उन्होंने ठेकेदारों को बताया कि माप में गलती नहीं होनी चाहिए तथा भवन का नक्शा भी देखकर जाँच की । इसके बाद माननीय प्रशासक ने घोघला में बने आवासीय योजना के तहत मकानों का निरीक्षण किया एवं मकान में रह रहे लोगों से बात की तथा किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जानकारी देने के लिए कहा । फिर प्रशासक महोदय घोघला स्थित सर्किट हाऊस पहुँचे एवं बैठक लेकर अपेक्षित दिशा-निर्देश दिये ।

अपराह्न करीब 4:30 बजे माननीय प्रशासक अपनी टीम सहित एजुकेशन हब निरीक्षण करने पहुँचे । वहाँ बारीकी से प्रत्येक कमरे में जाकर गुणवत्ता का परीक्षण किया एवं ठेकेदारों को बताया कि किसी भी तरह गलत काम नहीं होना चाहिए । माननीय प्रशासक महोदय ने इस अवसर पर वर्ग कक्षाओं में किये गए कार्यों का निरीक्षण किया एवं पदार्थ विज्ञान के प्रयोगशाला में पहुँचे व जाँच की । बाद में माननीय गृह मंत्री जी के लिए सभा स्थल का निर्धारण किया गया एवं नये बन रहे हॉस्टल बिल्डिंग का निरीक्षण किया । निरीक्षण करते समय माननीय प्रशासक महोदय ने निर्देश दिया कि अनावश्यक या गलत ढंग से किये गए कार्यों को तोड़कर नये सिरे से बनाया जाए । इसके उपरान्त प्रशासक महोदय निर्माणाधीन किला सर्किट हाऊस एवं जलन्धर सर्किट हाऊस देखने गए तथा शाम को 7:00 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की ।

बैठक के दौरान माननीय प्रशासक महोदय ने शिक्षा विभाग में परिणाम के बारे में, स्वास्थ्य विभाग में संजीवनी स्वास्थ्य योजना में नामांकन के बारे में, लोक निर्माण विभाग में विकासीय कार्यो की प्रगति के बारे में जानकारी ली । साथ ही मामलतदार व खण्ड विकास अधिकारी से भी चल रहे कार्यो के बारे में जानकारी ली । साथ ही सभी अधिकारियों से सुझाव दिया कि दीव को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने का उत्तरदायित्व लेना है ।